



**Govind**  
**Madhav**  
HERBAL TEA

**PRESENTS**

**GOVIND MADHAV GINGER TEA**



# GOVIND MADHAV GINGER TEA

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

Use 1gm For One Cup Tea  
Can be taken with milk or without Milk

ISQA Regd. No. 2332106001357  
ISO Certified 9001 : 2015

**Govind Madhav**  
HERBAL TEA

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

100% NATURAL  
Net Wt. : 200gm.

**SAFE FOR ALL AGES**

**EXOTIC FLAVOUR**

**REMOVES TOXINS**

**NO CAFFEINE**

**Nutritional Facts - GINGER TEA**

Serving Size 2 gms per cup (1/2 tea spoon)	Results per 1gm	% Daily Value
Energy Value	3.27K Cal	2000.654%
Total Fats & Cholesterol	0.00mg	0.00%
Potassium	2.21mg	0.096%
Total Carbohydrate	12.57mg	0.267%
Dietary Fibre	0.76gm	0.277%
Total Sugar	0.046gm	0.165%
Protein	0.00mg	0.00%
Calcium	0.054gm	0.108%
Iron	2.60mg	0.29%
Vitamin A	0.089mg	0.41%
Vitamin C	0.00mg	0.00%
	0.00mg	0.00%

**Net Wt. : 200gm**  
Batch No. : 14AT12023  
Packd. : Aug 2023  
Use Before : Aug 2026  
MFRP Rs. 50/-

**GINGER TEA**  
14 HERBS

A Quality Product From  
**Govind Madhav Herbal Tea**  
B-20-50, Vard Nagar, New Delhi-110084  
Customer Care - Cares@herbaltea.com  
Ph: +91 11 0555335, 9891 086194, 011-4851 5588  
E-mail: info@herbaltea.com, www.herbaltea.com

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

Use 1gm For One Cup Tea  
Can be taken with milk or without Milk

ISQA Regd. No. 2332106001357  
ISO Certified 9001 : 2015

**Govind Madhav**  
HERBAL TEA

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

100% NATURAL  
Net Wt. : 200gm.

**SAFE FOR ALL AGES**

**EXOTIC FLAVOUR**

**REMOVES TOXINS**

**NO CAFFEINE**

**Nutritional Facts - GINGER TEA**

Serving Size 2 gms per cup (1/2 tea spoon)	Results per 1gm	% Daily Value
Energy Value	3.27K Cal	2000.654%
Total Fats & Cholesterol	0.00mg	0.00%
Potassium	2.21mg	0.096%
Total Carbohydrate	12.57mg	0.267%
Dietary Fibre	0.76gm	0.277%
Total Sugar	0.046gm	0.165%
Protein	0.00mg	0.00%
Calcium	0.054gm	0.108%
Iron	2.60mg	0.29%
Vitamin A	0.089mg	0.41%
Vitamin C	0.00mg	0.00%
	0.00mg	0.00%

**Net Wt. : 200gm**  
Batch No. : 14AT12023  
Packd. : Aug 2023  
Use Before : Aug 2026  
MFRP Rs. 50/-

**GINGER TEA**  
14 HERBS

A Quality Product From  
**Govind Madhav Herbal Tea**  
B-20-50, Vard Nagar, New Delhi-110084  
Customer Care - Cares@herbaltea.com  
Ph: +91 11 0555335, 9891 086194, 011-4851 5588  
E-mail: info@herbaltea.com, www.herbaltea.com

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

Use 1gm For One Cup Tea  
Can be taken with milk or without Milk

ISQA Regd. No. 2332106001357  
ISO Certified 9001 : 2015

**Govind Madhav**  
HERBAL TEA

**GINGER TEA**  
14 HERBS INFUSION/TISANE

100% NATURAL  
Net Wt. : 200gm.

**SAFE FOR ALL AGES**

**EXOTIC FLAVOUR**

**REMOVES TOXINS**

**NO CAFFEINE**

**Nutritional Facts - GINGER TEA**

Serving Size 2 gms per cup (1/2 tea spoon)	Results per 1gm	% Daily Value
Energy Value	3.27K Cal	2000.654%
Total Fats & Cholesterol	0.00mg	0.00%
Potassium	2.21mg	0.096%
Total Carbohydrate	12.57mg	0.267%
Dietary Fibre	0.76gm	0.277%
Total Sugar	0.046gm	0.165%
Protein	0.00mg	0.00%
Calcium	0.054gm	0.108%
Iron	2.60mg	0.29%
Vitamin A	0.089mg	0.41%
Vitamin C	0.00mg	0.00%
	0.00mg	0.00%

**Net Wt. : 200gm**  
Batch No. : 14AT12023  
Packd. : Aug 2023  
Use Before : Aug 2026  
MFRP Rs. 50/-

**GINGER TEA**  
14 HERBS

A Quality Product From  
**Govind Madhav Herbal Tea**  
B-20-50, Vard Nagar, New Delhi-110084  
Customer Care - Cares@herbaltea.com  
Ph: +91 11 0555335, 9891 086194, 011-4851 5588  
E-mail: info@herbaltea.com, www.herbaltea.com

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## Govind Madhav Ginger Tea

blended from 14 fast acting botanicals contains many herbal ingredients derived from Bark, Roots, Seeds, Twigs, Leaves, Flowers and Grasses, which have several therapeutic functions.

It does not contain even a pinch of caffeine or tannin.

## गोविंद माधव अदरक चाय

14 तेजी से काम करने वाली वनस्पतियों से मिश्रित गोविंद माधव अदरक चाय में छाल, जड़ें, बीज, टहनियाँ, पत्तियां, फूल और घास से प्राप्त कई हर्बल तत्व शामिल हैं, जिनके कई चिकित्सीय कार्य हैं।

इसमें चुटकी भर भी कैफीन या टैनिन नहीं होता है।



# GOVIND MADHAV GINGER TEA

- ❖ **Govind Madhav Herbal Teas**
- ❖ Plants produce a wide range of chemicals in the normal course of their metabolic activities. These chemicals serve different functions for the plant. Some of these chemicals are beneficial to humans.
- ❖ When herbal tea is being brewed, it is these chemicals in the herbs that are released in tea water.
- ❖ **Govind Madhav Herbal Teas** contain natural herbs which have many health benefits because of their medicinal properties.



पौधे अपनी चयापचय गतिविधियों के सामान्य क्रम में कई प्रकार के रसायनों का उत्पादन करते हैं। ये रसायन पौधे के लिए अलग-अलग कार्य करते हैं। इनमें से कुछ रसायन मनुष्यों के लिए फायदेमंद हैं।

जब हर्बल चाय बनाई जाती है, तो जड़ी-बूटियों में मौजूद ये रसायन ही चाय के पानी में निकलते हैं।

गोविंद माधव हर्बल चाय में प्राकृतिक जड़ी-बूटियाँ होती हैं जिनके औषधीय गुणों कारण कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं।

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## GINGER TEA - 14 HERBS LIST

**Caryophyllus aromaticus** (Lavanga, Cloves), **Cinnamomum tamala** (Tejpatra, Indian cassia), **Cinnamomum zeylanicum** (Dalchini, Chinese cassia), **Cyperus rotundus** (Nagarmotha, Nut grass), **Elettaria cardamomum** (Elaichi chhoti, Cardamom), **Foeniculum vulgare** (Saunf, Indian sweet fennel), **Glycyrrhiza glabra** (Yashtimadhu, Liquorice), **Mentha arvensis** (Pudina, Mint), **Piper nigrum** (Kali mirich, Black pepper), **Trachyspermum ammi** (Ajwain, Carom seeds), **Rosa damascena** (Gulab ke phool, Rose petals), **Rubia cordifolia**, (Manjishta, Indian madder), **Withania somnifera** (Ashwagandha, Winter cherry), **Zingiber officinale** (Saunth, Ginger).



# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## GINGER TEA - 14 HERBS LIST

Saunth, Ashwagandha, Dalchini, Elaichi chhoti, Gulab ke phool, Kalimirich, Lavanga, Manijshta, Nagarmotha, Pudina, Ajwain, Saunf, Tejpatra, Yashtimadhu

अदरक की चाय - 14 जड़ी-बूटियों की सूची

सौंठ, अश्वगंधा, दालचीनी, इलाइची छोटी, गुलाब के फूल, कालीमिरिच, लवंगा, मनिजष्ठ, नागरमोथा, पुदीना, अजवाइन, सौंफ, तेजपत्र, यष्टिमधु



# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## GINGER TEA BENEFITS

Improves Immunity  
Boosts Energy  
Improves metabolism  
Abundant in Antioxidants  
Removes Toxins  
Tones up Heart  
Stress Relaxant  
Uplifts Mood  
Body Rejuvenator  
Excellent Health Benefits  
Powerful Adaptogen

## अदरक की चाय के फायदे

रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है  
ऊर्जा को बढ़ावा देता है  
मेटाबोलिज्म में सुधार करता है  
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर  
विषाक्त पदार्थों को दूर करता है  
दिल को टोन करता है  
तनाव से आराम  
मूड को बेहतर बनाता है  
शरीर का कायाकल्प करने वाला  
उत्कृष्ट स्वास्थ्य लाभ  
शक्तिशाली एडाप्टोजेन



AROMA - GINGER अदरक

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## ❖ GINGER TEA - SALIENT FEATURES

- ❖ It is used in upset stomach, cramping, motion sickness, nausea, vomiting and loss of appetite and improves digestion.
- ❖ It reduces hunger, thus helps to lose weight.
- ❖ It is used in **Sore-throat**, laryngitis and cold.
- ❖ It detoxifies the body from toxins associated with Rheumatoid arthritis, Osteoarthritis, bursitis and muscle sprains.



AROMA - GINGER अदरक

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## अदरक की चाय - मुख्य विशेषताएं:

- ❖ इसका उपयोग पेट की खराबी, ऐंठन, मोशन सिकनेस, मतली, उल्टी और भूख न लगने में किया जाता है और पाचन में सुधार करता है।
- ❖ यह भूख को कम करता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है।
- ❖ इसका उपयोग गले की खराश, स्वरयंत्रशोथ और सर्दी में किया जाता है।
- ❖ यह रुमेटीइड गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, बर्साइटिस और मांसपेशियों में मोच से जुड़े विषाक्त पदार्थों से शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है।



AROMA - GINGER अदरक

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

Nutritional facts are obtained as per USA norms from a Government accredited **Economy Testing & Research Laboratory** in India

Reference No: ETRL/F/2022090302/207 Date 07-09-2022

Nutrition Facts GINGER TEA		
	Results per 1gm	% Daily Value per 2000 Kcal
Serving Size 2 gms per cup (1/2 tea spoon)		
Energy Value	3.27 K Cal	
Total Fats & Cholesterol	0.00mg	0.00%
Sodium	2.21mg	0.096%
Potassium	12.57mg	0.267%
Total Carbohydrate	0.76gm	0.277%
Dietary Fibre	0.046gm	0.165%
Total Sugar	0.00mg	0.00%
Protein	0.054gm	0.108%
Calcium	2.60mg	0.20%
Iron	0.089mg	0.41%
Vitamin A	0.00mg	0.00%
Vitamin C	0.00mg	0.00%



# GINGER TEA USAGE

## • GINGER TEA USAGE

- Improves Digestion,
- Improves Cough & Cold,
- Improves General Strength
- Boosts Immunity,
- Boosts Energy,
- Improves metabolism,
- Abundant in Antioxidants,
- Removes Toxins,
- Tones up Heart,
- Stress Relaxant,
- Uplifts Mood,
- Body Rejuvenator.

## अदरक की चाय का उपयोग

- पाचन में सुधार करता है,
- खांसी और सर्दी में सुधार करता है,
- सामान्य शक्ति में सुधार करता है,
- प्रतिरक्षा को बढ़ाता है,
- ऊर्जा को बढ़ाता है,
- चयापचय में सुधार करता है,
- एंटीऑक्सिडेंट में प्रचुर मात्रा में,
- विषाक्त पदार्थों को हटाता है,
- दिल को टोन करता है,
- तनाव को आराम देता है,
- मूड को बढ़ाता है,
- शरीर को फिर से जीवंत करता है।



# GOVIND MADHAV TEAS - FEATURES



## SALIENT FEATURES

Teas made by a Doctor  
Herbs Help Maintain Health  
No Black or Green Tea Leaves.  
No Caffeine or Tannin.  
All-natural herbs and flavors  
No artificial colors  
No Preservatives.  
Safety Dose of Herbs taken care  
Herbal Teas for All Seasons  
Very Mild and Safe for All Ages  
Superb Alternative to Black Tea



# GOVIND MADHAV TEAS



## CERTIFICATES OF GOVIND MADHAV HERBAL TEA

- ❖ **Registered Trade Mark No.** 2087965 Class: 30 Valid Upto : 21/01/2031
- ❖ **Indian Export Council Registration No.** 0511017367
- ❖ **GST No.:** 07AAAHPG9824B1ZW
- ❖ **FSSAI Certificate No:** 23321006001357
- ❖ **ISO 9001:2015** Otabu Registration No.: 304090221
- ❖ **Nutritional facts:** Economy Testing & Research Laboratory Reference No: ETRL/F/2022090301/207 Date 07-09-2022
- ❖ **UDYAM:** Registration Number UDYAM-DL-06-0081696
- ❖ Available in ISKCON Temples in India & Served in ISKCON Temple Restaurants..
- ❖ Website: [www.govindmadhavherbaltea.com](http://www.govindmadhavherbaltea.com)
- ❖ Email: [govindmadhavtea@gmail.com](mailto:govindmadhavtea@gmail.com)



# GINGER TEA VIDEO LINK

GINGER TEA VIDEO LINK

<https://youtu.be/feK1umfoHdY>



# GOVIND MADHAV TEAS- CONTACT DETAILS

- CONTACT FOR MORE DETAILS AND ORDER
- **Dr Satish Gosain MBBS, DNB (i) Med**
- **Govind Madhav Herbal Tea**
- B-29-30, Hari Nagar, New Delhi, 110064 India
- Mobile : 97170-55006, 98913-86194, 011-4561-5006
- [E-MAIL: govindmadhavtea@gmail.com](mailto:govindmadhavtea@gmail.com)
- [Website: govindmadhavherbaltea.com](http://govindmadhavherbaltea.com)
- Whatsapp No 9717055006
- PAYTM NO 9717055006



# GOVIND MADHAV TEAS

HERBAL TEA

(20 Herbs)

GINGER TEA

(14 Herbs)

TULSI TEA

(16 Herbs)

COUGH TEA

(27 Herbs)

DIABETIC TEA

(27 Herbs)

WEIGHT LOSS TEA

(24 Herbs)



**WEIGHT LOSS TEA (24 HERBS)**  
For Managing Weight & General Well Being.



**DIABETIC TEA (27 HERBS)**  
For Managing Diabetes, High Cholesterol level,



**HERBAL TEA (20 HERBS)**  
General Strength Tones up Heart, and Boosts Immunity & Memory.



**COUGH TEA (27 HERBS)**  
For Cough, Cold, Bronchitis, Asthma and Sinusitis.



**GINGER TEA (14 HERBS)**  
For Digestion, Cough & Cold, Detoxifies Toxins, Improves General Strength and Boosts Immunity.



**TULSI TEA (16 HERBS)**  
For General Well being & Bolstering Immunity.

# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## PREPARING GINGER TEA AT HOME RECIPE



# Hot Ginger Tea with Milk: Recipe for 1 cup

- **Hot Milk Tea - Recipe for 1 cup**
- Boil 1/2 cup of water & 1/2 cup of milk. Add 1 spoon of Tea (spoon provided in the pack). Boil for 2 minutes. Add sugar or Honey to taste. Strain & serve Hot.
- गरम दूध वाली चाय:
- 1/2 कप पानी और 1/2 कप दूध को उबाल लें। 1 चम्मच चाय (पैक में दिया गया चम्मच) डालें। 2 मिनट तक उबालें। स्वादानुसार चीनी या शहद डालें। छान कर गरमागरम परोसें।



# Cold Ginger Tea Shake: Recipe for 1 cup

- **Cold Tea Shake:**

- Boil 1 cup of milk Add 1 spoon of Tea (spoon provided in the pack). Boil for 2 minutes. Add sugar or Honey to taste. Strain & cool. Shake in a blender mixer with ice added. Serve as ice cold shake.

- कोल्ड टी शेक:

- 1 कप दूध उबाल लें 1 चम्मच चाय (पैक में दिया गया चम्मच) डालें। 2 मिनट तक उबालें। स्वादानुसार चीनी या शहद डालें। बर्फ के साथ ब्लेंडर मिक्सर में हिलाएं। आइस कोल्ड शेक के रूप में परोसें।



# Hot Ginger Tea Without Milk: Recipe for 1 cup

- **Hot Tea without Milk:**
- Boil 1 cup of water. Add 1 spoon of Tea (spoon provided in the pack) & a peel of half lemon or a few drops of Lemon juice. Boil for 2 minutes. Add sugar or Honey to taste. Strain & serve Hot.
- 
- **बिना दूध की गर्म चाय:**
- 1 कप पानी उबालें। 1 चम्मच चाय (पैक में दिए गए चम्मच) और आधा नींबू का छिलका या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाएं। 2 मिनट तक उबालें. स्वादानुसार चीनी या शहद मिलायें। छान लें और गर्मागर्म परोसें।





# GOVIND MADHAV GINGER TEA

## GOVIND MADHAV GINGER TEA RECIPE FOR RESTAURANTS



# HOT TEA RECIPE WITH MILK FOR RESTAURANTS

- **HOT TEA RECIPE**
- TAKE 1 LITER OF PURE MILK **OR**
- 1 LITER OF MIXTURE OF 50% MILK AND 50% WATER **OR**
- ADJUST MILK AND WATER AS PER TASTE.
- ADD 16 GRAMS OF GOVIND MADHAV GINGER TEA.
- BOIL FOR 3 MINUTES, SIEVE AND SERVE.
- IF ABOVE PREPARATION HAS LESS OF TEA STRENGTH THEN YOU CAN ADD MORE TEA AND REBOIL. IT WILL NOT LOOSE TASTE RATHER IT WILL BE TASTIER.



# HOT TEA RECIPE WITH MILK FOR RESTAURANTS

## गर्म चाय की रेसिपी

- 1 लीटर शुद्ध दूध लें या 50% दूध और 50% पानी का 1 लीटर मिश्रण या दूध और पानी को स्वाद के अनुसार समायोजित करें।
- 16 ग्राम गोविंद माधव अदरक की चाय मिलाएं।
- 3 मिनट तक उबालें, छान लें और परोसें
- यदि उपरोक्त तैयारी में चाय की ताकत कम है तो आप अधिक चाय मिला सकते हैं और दोबारा उबाल सकते हैं। इसका स्वाद खत्म नहीं होगा बल्कि यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा.



# COLD TEA RECIPE WITH MILK FOR RESTAURANTS

- **GINGER TEA COLD MILK SHAKE RECIPE**
- ONE LITER OF PURE MILK WILL NEED 16 GRAMS OF GOVIND MADHAV GINGER TEA.
- BOIL FOR 3 MINUTES. COOL AND SIEVE
- ADD ICE AND SHAKE IN A MIXER BLENDER JAR AND SERVE COLD.
- IF ABOVE PREPARATION HAS LESS OF TEA STRENGTH THEN YOU CAN ADD MORE TEA AND REBOIL. IT WILL NOT LOOSE TASTE RATHER IT WILL BE TASTIER.



# COLD TEA RECIPE WITH MILK FOR RESTAURANTS

अदरक की ठंडी दूध चाय शेक रेसिपी

एक लीटर शुद्ध दूध के लिए 16 ग्राम गोविंद माधव अदरक की चाय की आवश्यकता होगी। 3 मिनट तक उबालें। ठंडा करके छान लें बर्फ डालें और मिक्सर ब्लेंडर जार में डालें और ठंडा परोसें।

यदि उपरोक्त तैयारी में चाय की ताकत कम है तो आप अधिक चाय मिला सकते हैं और दोबारा उबाल सकते हैं। इसका स्वाद खत्म नहीं होगा बल्कि यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा।



# ICED TEA RECIPE FOR SNACK CORNERS/RESTAURANTS

- TAKE 1/2 LITER OF WATER.
- IT WILL NEED 16 GRAMS OF GOVIND MADHAV GINGER TEA.
- BOIL FOR 3 MINUTES. COOL AND SIEVE
- ADD ½ LITER OF COLD WATER AND REFRIGERATE. POUR OVER ICE TO SERVE.
- IF ABOVE PREPARATION HAS LESS OF TEA STRENGTH THEN YOU CAN ADD MORE TEA AND REBOIL. IT WILL NOT LOOSE TASTE RATHER IT WILL BE TASTIER.



# ICED TEA RECIPE FOR SNACK CORNERS/RESTAURANTS

1/2 लीटर पानी लें. इसके लिए 16 ग्राम गोविंद माधव अदरक चाय की आवश्यकता होगी।

3 मिनट तक उबालें। ठंडा करके छान लें ½ लीटर ठंडा पानी डालें और ठंडा करें। परोसने के लिए बर्फ डालें

यदि उपरोक्त तैयारी में चाय की ताकत कम है तो आप अधिक चाय मिला सकते हैं और दोबारा उबाल सकते हैं। इसका स्वाद खत्म नहीं होगा बल्कि यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा.

